

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 17 फ़रवरी 2023

### प्रश्न -1

याया त्सो को \_\_\_\_\_ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

- A) दिल्ली
- B) लद्दाख
- C) चंडीगढ़
- D) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

**सही उत्तर: B**

अधिकारियों ने बताया कि 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाने जाने वाले याया त्सो को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल ( BHS) के रूप में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित याया त्सो साइट का अनुमानित क्षेत्रफल 60 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें झील का वाटरशेड भी शामिल होगा।

### प्रश्न-2

निम्नलिखित में से कौन सा AI चैटबॉट गूगल द्वारा लॉन्च किया जाएगा?

- A) वाटसन अससिस्टेंट
- B) हब स्पॉट
- C) ड्रिफ्ट
- D) बार्ड

**सही उत्तर: D**

गूगल ने अपने संवादात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( AI) चैटबॉट 'बार्ड' को पेश किया है। बार्ड ओपन AI के चैट GPT का सीधा प्रतिद्वंदी होगा, जिसने पिछले साल नवंबर में लॉन्च होने के बाद से इंटरनेट पर तूफान ला दिया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 17 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-3

निम्नलिखित में से कौन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला नगर निगम है?

- A) कोलकाता
- B) इंदौर
- C) भुवनेश्वर
- D) भोपाल

**सही उत्तर: B**

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और इंदौर स्मार्ट सिटी विकास आयोग के मुख्य कार्याधिकारी दिव्यांक सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि इंदौर नगर निगम लगातार छह साल से स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर है और ग्रीन बांड शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है।

### प्रश्न-4

हेवी-ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक \_\_\_\_\_ द्वारा लॉन्च की गई थी।

- A) भारतबेंज ट्रक
- B) महिंद्रा ट्रक्स
- C) रिलायंस इंडस्ट्रीज
- D) टाटा ट्रक्स

**सही उत्तर: C**

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हेवी-ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजनतकनीक समाधान पेश किया है। रिलायंस और उसके वाहन साझेदार अशोक लेलैंड ने कुछ अन्य भागीदारों के साथ मिलकर अपने नेट कार्बन जीरो विजन के तहत तकनीक विकसित की।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 17 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-5

वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन का 24% योगदान देते हुए \_\_\_\_\_ दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है।

- A) US
- B) रूस
- C) पाकिस्तान
- D) भारत

**सही उत्तर: D**

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में लोकसभा को बताया है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में चौबीस प्रतिशत का योगदान दिया है।

### प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किसे डिलाइटफुल गोरमेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लांट-बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव द्वारा अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) विराट कोहली
- B) वीर दास
- C) रणबीर कपूर
- D) अनुष्का शर्मा

**सही उत्तर: B**

डिलाइटफुल गोरमेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लांट-बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव, जो मीट डिलीवरी ब्रांड लिशियस का मालिक भी है, ने कॉमेडियन-अभिनेता वीर दास को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 17 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-7

36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन \_\_\_\_\_ द्वारा किया गया था।

- A) जगदीप धनखड़
- B) पीएम नरेंद्र मोदी
- C) द्रौपदी मुर्मू
- D) स्मृति ईरानी

**सही उत्तर: A**

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 36वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र था, और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया है।

### प्रश्न-8

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की योजना बना रहा है?

- A) असम
- B) कर्नाटक
- C) केरल
- D) ओडिशा

**सही उत्तर: C**

केरल सरकार ने अगले दो वर्षों में त्रिवेंद्रम और कोच्चि में ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है। केरल का लक्ष्य 2040 तक 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर राज्य और 2050 तक शुद्ध कार्बन तटस्थ राज्य बनना है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 17 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किस देश में ग्रामीण परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के लिए , भारत ने हाल ही में 50 बसें प्रदान की हैं?

- A) तुर्की
- B) श्रीलंका
- C) नेपाल
- D) बांग्लादेश

**सही उत्तर: B**

द्वीप राष्ट्र की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए , भारत ने श्रीलंका में ग्रामीण परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 50 अन्य बसें सौंपी हैं। वाहनों का नवीनतम बेड़ा श्रीलंका को सौंपी जाने वाली 500 बसें का हिस्सा है।

### प्रश्न-10

निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हाल ही में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है?

- A) शुक्र
- B) शनि
- C) मंगल
- D) बृहस्पति

**सही उत्तर: D**

खगोलविदों ने बृहस्पति के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे कुल गिनती 92 हो गई है। यह हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह से अधिक है। शनि, जो पूर्व में पहले स्थान पर था, 83 चंद्रमाओं के साथ दूसरे स्थान पर आता है।